



मारुति की ऑल्टो ने रचा इतिहास, 45 साल में 25 लाख ग्राहक हुए संतुष्ट


ओटावा । पिछले 45 सालों में भारत की कार कंपनी मारुति ऑल्टो ने 25 लाख ग्राहकों को संतुष्ट किया है। इस तरह से मारुति ने भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया है। कंपनी की इस लोकप्रिय कार ने 45 लाख यूनिट सेल करते हुए माइलस्टोन हासिल किया है। यह कंपनी की फ्रीचर-पैक बजट हेचबैक में से एक है। नए मील के पथर के बारे में बोलते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, मार्केटिंग और सेल्स, शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 2 दशकों में, ब्रांड ऑल्टो ने हमारे ग्राहकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। हमें ऑल्टो की अविध्वंसनीय यात्रा पर बेहद गर्व है। उन्होंने कहा कि 45 लाख ग्राहकों की उपलब्धि हासिल करना हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर रखे गए अटूट समर्थन और विश्वास का प्रमाण है। यह एक मील का पथर है जिसे आज तक कोई अन्य कार ब्रांड हासिल नहीं कर सका है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी ने ऑल्टो 800 के साथ मार्केट में एंट्री की थी। पिछले साल कंपनी ने इसके न्यू जेनरेशन मॉडल ऑल्टो के 10 को पेश किया था। यह नई ऑल्टो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच स्माटलेन स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आती है।

एचपीसीएल को 6,203.9 करोड़ का लाभ

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,203.90 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। एचपीसीएल ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 10,196.94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एचपीसीएल ने बताया कि जनवरी-मार्च, 2023 तिमाही के 3,222.62 करोड़ रुपए की तुलना में यह लाभ 92 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि आलोच्य तिमाही में कंपनी की परिचालन आय दो प्रतिशत घटकर 1.18 लाख करोड़ रुपए रही लेकिन विपणन मार्जिन बेहतर होने से कंपनी का लाभ बढ़ा है।

पिछले छह महीने में 5,000 करोड़ के कॉस्मेटिक्स उत्पाद बिक गए

नई दिल्ली । देश के बाजारों में पिछले छह महीने में 5,000 करोड़ रुपए के लिपिस्टिक जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स उत्पाद बिक गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप-10 ब्राहों में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पर यह खर्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन उत्पादों की खरीदारी करने वाली सभी महिलाएं कामकाजी हैं। मेकअप की बिन्नी में सर्वाधिक योगदान इन्हीं महिलाओं का है। कॉस्मेटिक खरीदारों की कुल भुगतान राशि का औसतन 1.6 गुना खर्च कामकाजी महिलाएं ही करती हैं। कुल बिन्नी में ऑनलाइन खरीदारी की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही। दुकानदारों के कहने पर 36 फीसदी सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद खरीदे जाते हैं। कुल खरीदारी में लिपिस्टिक की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 38 फीसदी रही। छह महीने में 3.1 करोड़ लिपिस्टिक, 2.6 करोड़ नेलपॉलिश, 2.3 करोड़ आंखों से जुड़े उत्पाद और 2.2 करोड़ चेहरों के उत्पाद खरीदे गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण सौंदर्य प्रधासन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो सकती है। भारत में सिर्फ 6 महीने के अंदर कॉस्मेटिक्स पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा होने को लेकर एक अध्ययन किया गया है। इसके हिसाब से कॉस्मेटिक्स की सेल में बढ़ोतरी होने की वजह अब ज्यादा महिलाओं का घर से बाहर काम के लिए निकलना है।



मॉर्गन स्टेनली ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाया भरोसा

- रेटिंग को किया अपग्रेड, चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग घटाई

नई दिल्ली ।

अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने भारत की स्थिति को ओवरवैट में अपग्रेड कर दिया है। वहीं चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग को घटाकर इक्वल-वेट कर दी है। बता दें कि इससे पहले फिच ने डेट सीलिंग को देखते हुए अमेरिका पर आउटलुक डाउनग्रेड कर दिया था। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने रिपोर्ट में कहा कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है। मार्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट में भारत का आउटलुक बढ़ाकर ओवरवैट कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी

कहा गया है कि भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत के समान दिखता है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एक दशक में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट चीन से आगे निकल जाएगा। मॉर्गल स्टेनली का मानना है कि भारत में पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिले हैं, जिसका असर अब कमीडिटी की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि की अंगुष्ठीति रहे, अमेरिका में मंदी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने कार्यों पर रोक बनाए रखें।

है। मॉर्गन स्टेनली को भी उम्मीद है कि दिसंबर तक चीन के अतीत के समान दिखता है। तब सेसेक्स 68,500 अंक तक पहुंच जाएगा और उम्मीद है कि सूचकांक 25 साल के औसत 20 गुना की तुलना में 20.5 गुना के अनुगामी मूल्य-से-आय गुणक पर व्यापार करेगा। फर्म का कहना है कि सेसेक्स का 68 हजार का टॉगेट अब पूरा हो सकता है अगर कमीडिटी की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि की अंगुष्ठीति रहे, अमेरिका में मंदी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने कार्यों पर रोक बनाए रखें।

मस्क ने टेस्ला के लिए पुणे में 5 साल की लीज पर लिया कार्यालय

नई दिल्ली ।

भारत में अपना मोटर व्हीकल कारोबार बढ़ाने के लिए ईलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की तैयारी ज़ोरों पर है। मस्क की टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में टेस्ला ऑफिस के लिए एक जगह किराये पर ली है। कंपनी ने 5 साल के लिए ये जगह लीज पर ली है। कंपनी की ओर से यह कदम टेस्ला के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल

के भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए प्रोत्साहन और लाभों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मुलाकात के बाद उठया गया है। टेस्ला की भारतीय सहायक कंपनी की ओर से पांच साल के लिए ये ऑफिस लीज लिया गया है। टेस्ला की सहायक कंपनी ने पंचशील बिजनेस पार्क में बी विंग की पहली मंजिल पर 5,580 वर्ग फुट कार्यालय स्थान लिया है। कंपनी ने ये डील टेबलस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ की है।

इसका किराया 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा और दोनों कंपनियां 5 प्रतिशत हर साल की बढ़ोतरी शर्त के साथ 36 महीने की लॉक-इन अवधि पर सहमत हुई हैं। रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स के मुताबिक शेयर किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला 60 महीने के लिए जगह पट्टे पर लेने के लिए 11.65 लाख रुपए का मासिक किराया और 34.95 लाख रुपए



की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करेगी।

टमाटर की कीमत 300 रुपए किलो तक होने की संभावना

नई दिल्ली ।

टमाटर की कीमतें आने वाले दिनों में 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने की आशंका जताई गई है। थोक कारोबारियों ने आवक कम होने से टमाटर के थोक दाम बढ़ने की बात कही है। उनका कहना है कि इसका असर खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। दिल्ली स्थित आजादपुर टमाटर एसोसिएशन का कहना है कि

पिछले तीन दिनों में टमाटर की आवक कम हो गई है क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है थोक बाजार में टमाटर के भाव 160 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जिसके कारण खुदरा कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सब्जियों के थोक विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री में भारी

गिरावट आई है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने से टमाटर की कीमत एक महीने से अधिक समय से चढ़ी हुई है।

आजादपुर सब्जी मंडी के एक थोक विक्रेता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण सब्जियों के परिवहन में काफी कठिनाई हो रही है। उत्पादकों से सब्जियों को लाने में सामान्य से छह-आठ घंटे अधिक लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में

टमाटर की कीमत लगभग 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है।

उन्होंने कहा कि टमाटर और अन्य सब्जियां जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से आती हैं, उनकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में भारी बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ है। इस बीच, मदर डेयरी अपने सफल स्टोर के जरिये टमाटर की बिक्री 259 रुपए प्रति किलो पर कर रही है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 542, निफ्टी 144 अंक गिरा , निवेशकों के 1.01 लाख करोड़ डूबे

मुम्बई । शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही वीकली एक्सपायरी पर बिकवाली हावी रहने से आई है। बैंकिंग, संपत्ति और उर्जा शेयरों में बिकवाली से भी बाजार नीचे आया। इसके साथ ही मेटल, इंधन और ऑटो शेयरों में भी बिकवाली रही। वहीं दवा कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 542.10 अंक करीब 0.82 फीसदी नीचे आकर 65,240.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144.90 अंक आकर 0.74 फीसदी नीचे आकर 19381.65 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में अडानी



कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 65.70 अंक टूटकर 19,460.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। प्री-ओपनिंग में बाजार में गिरावट दिखी। सेंसेक्स 292.99 अंक की गिरावट के साथ 65,489.79 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50.30 अंक यानी 0.26 फीसदी की गिरावट के साथ 19,476.20

के स्तर पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां भी नरमी देखने को मिली। देश में सेवा क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ी है। सेवा क्षेत्र की विकास दर जुलाई में 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कि मांग में उल्लेखनीय सुधार और अंतरराष्ट्रीय बिक्री बढ़ने से ये तेजी आई है।

देश के कई राज्यों में बदले पेट्रोल और डीजल के भाव

- ब्रेंट क्रूड 0.12 डॉलर की तेजी के साथ 83.32 डॉलर प्रति बैरल

नई दिल्ली । वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत मामूली तेजी दिख रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.10 डॉलर बढ़कर 79.59 डॉलर प्रति बैरल पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.12 डॉलर की तेजी के साथ 83.32 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 35 और डीजल में 33 पैसे का इजाफा नजर आ रहा है। पंजाब में पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 30 तक महंगा हो गया है। तेलंगाना में पेट्रोल 1.55 रुपए और डीजल 1.45 रुपए बढ़कर बिक रहा है। दूसरी ओर राजस्थान में पेट्रोल की कीमत में 14 और डीजल में 12 पैसे की गिरावट नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल-डीजल के दाम में हल्की गिरावट है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.73 रुपए और डीजल 94.33 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में पेट्रोल 96.65 रुपए और डीजल 89. 82 रुपए प्रति लीटर हो गया है। गाजियाबाद में 96.58 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 96.47 रुपए और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

गौतम अडाणी ने अंबुजा सीमेंट का किया अधिग्रहण

- सीमेंट उत्पादन क्षमता 6.75 करोड़ टन से बढ़कर 7.36 करोड़ टन हो जाएगी

मुंबई । अंबुजा सीमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए के उपक्रम मूल्य पर सांची इंडस्ट्रीज में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। सांची पश्चिम भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनी है। अडाणी समूह की इकाई अंबुजा सीमेंट द्वारा सांची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) के मौजूदा प्रवर्तकों रवि सांची और परिवार से कंपनी की 56.74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण का वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडाणी की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद यह समूह द्वारा किया गया पहला बड़ा सौदा है। इस सौदे से अंबुजा सीमेंट को अपनी क्षमता को बढ़ाकर 7.36 करोड़ टन सालाना करने में मदद मिलेगी। अल्ट्राटेक के बाद अंबुजा सीमेंट दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट विनिर्माता है। अडाणी समूह पिछले साल सितंबर में अंबुजा सीमेंट और उसकी अनुषंगी एससी लिमिटेड में बहुलांश

हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद सीमेंट क्षेत्र में उतरा था। बयान में कहा गया है कि एसआईएल के अधिग्रहण से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड (एससीएल) को बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी की सीमेंट उत्पादन क्षमता 6.75 करोड़ टन से बढ़कर 7.36 करोड़ टन की हो जाएगी। 1.4 करोड़ टन के लिए पूंजीगत व्यय तथा 2023-24 की दूसरी तिमाही तक दाहेज और अमेथा में 55 लाख टन क्षमता चालू होने के बाद 2025 तक अडाणी समूह की क्षमता 10.1 करोड़ टन सालाना की होगी। इस घटनाक्रम पर अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अधिग्रहण है। इससे अंबुजा सीमेंट्स की वृद्धि की यात्रा को तेज करने में मदद मिलेगी।



एक्ट्रेस बनने से पहले यह काम करती थीं कियारा आडवाणी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 31 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फिल्म 'फुगली' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली कियारा ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें फिल्म 'कबीर सिंह' से काफी लोकप्रियता मिली है। इस फिल्म में उन्होंने 'प्रीति' का किरदार निभाया और आज भी कई लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्मों में आने से पहले कियारा आडवाणी क्या काम करती थीं? एक इंटरव्यू के दौरान कियारा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ खुलासे किए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो एक प्ले स्कूल में बच्चों को संभालने का काम करती थीं। कियारा ने बताया था कि वो एक्ट्रेस बनने से पहले बेबी सिटिंग का काम करती थीं। कियारा ने कहा, एक्ट्रेस बनने से पहले मैं अपनी मां के प्री-स्कूल में काम करती थी। मैं वहां सुबह 7 बजे पहुंचकर बच्चों की देखभाल करती थी। मैंने वहां बच्चों को संभालने के सारे काम किए। एक्ट्रेस ने कहा था कि बच्चों को नर्सरी की कविताएं सुनाती थी, उन्हें अल्फाबेट्स और नंबर याद करवाती थी। इतना ही नहीं, मैंने बच्चों के डायपर भी चेंज किए हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं।

‘ओएमजी 2’ को मिला यूए सर्टिफिकेट, अक्षय कुमार के किरदार में होंगे बदलाव

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' टीजर रिलीज के बाद से ही विवादों में उलझी हुई है। टीजर रिलीज के बाद फिल्म के एक सीन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने 'ओएमजी 2' की रिलीज पर रोक लगा दी थी और फिल्म को वापस रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया था।

फिल्म की रिलीज को महज कुछ दिन बचे हैं और सेंसर बोर्ड है फिल्म के सर्टिफिकेट को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। इस फिल्म के मेकर्स और सीएफसी के अधिकारियों के बीच मीटिंग्स का दौर जारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि सेंसर बोर्ड में 20 कट्स का सुझाव देते हुए 'ओएमजी 2' को ए सर्टिफिकेट देने की पेशकश की है।

वहीं अब खबर आ रही है कि सेंसर बोर्ड ने 'ओएमजी 2' को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। बोर्ड ने मेकर्स को फिल्म में 20 कट और 15 बदलाव करने के सुझाव दिए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेकर भी बदलाव किया जा सकता है। फिल्म में पहले अक्षय कुमार को भगवान शिव का अवतार बताया जा रहा था लेकिन अब उन्हें शिव का दूत बताया जा सकता है। बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये बहुत हद तक संभव है कि फिल्म ओएमजी 2 का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज हो जाए।

फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। मेकर्स को सेंसर बोर्ड के निर्देशों का पालन करना होगा, इसकी वजह से फिल्म को रिलीज होने में अभी टाइम लग सकता है। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली 'ओएमजी 2' का प्रमोशन विवादों की वजह से मेकर्स अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं। बता दें कि 'ओएमजी 2' में अक्षय कुमार के साथ यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अरुण गोविल भगवान राम के किरदार में दिखेंगे। यह फिल्म अमित राय द्वारा निर्देशित और लिखित है।



शोभिता धूलिपालाने रैंप वॉक के दौरान ईशान खट्टर को किया इग्नोर, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

शोभिता धूलिपाला ने रैंप वॉक के दौरान ईशान खट्टर को उस समय नजरअंदाज कर दिया जब वे दोनों एक ही डिजाइनर के लिए वॉक करते दिखे। प्रशंसक इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे इसे 1000 से अधिक बार देख सकते हैं हाल ही में मेड इन हेवन 2 की अभिनेत्री और ईशान ने रैंप वॉक किया। दिल्ली में एक साथ रैंप पर और उनकी केमिस्ट्री शून्य थी और वास्तव में शोभिता द्वारा ईशान को रैंप पर नजरअंदाज करने से सभी का ध्यान आकर्षित हुआ और कई लोग उनके रवैये पर उनकी आलोचना कर रहे हैं और अन्य लोग इसे पसंद कर रहे हैं और उन्हें पेशेवर कह रहे हैं। शोभिता हॉट लग रही थी, लेकिन ईशान को नजरअंदाज करना शहर में चर्चा का विषय बन गया और वीडियो जंगल की आग की तरह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर प्रशंसकों और नेटिजन्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं देखें। एक यूजर ने कमेंट किया, 'अब ये नल्ले नेपो किड्स फुटेज लेंगे जबरदस्ती चिपकेंगे टैलेटेड आउटसाइडर सेफ़। एक अन्य यूजर ने कहा, 'ईशान को रैंप पर कौन बुलाया..गार्डन भेजना था इसे गोटी खेलने के लिए। एक और यूजर ने कहा, 'उसने उस बेचारे की तरफ देखा तक नहीं।' एक फैन ने कमेंट किया, 'मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं को वैसे ही नजरअंदाज कर दूंगा जैसे शोभिता ने ईशान को नजरअंदाज किया था।'



सोशल मीडिया पर कहर बरपा रही किम

सोशल मीडिया पर हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी बॉल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस की तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ले से वायरल होती हैं। इसी बीच किम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बाथ लेते हुए की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब कहर बरपा रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किम कार्दशियन ब्लैक बिकिनी पहने स्विमिंग करती नजर आ रही हैं। बिकिनी पहन वह पानी में खूब गोते लगा रही हैं। नहाने के बाद पूल से बाहर निकल वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस का ये लुक देख उनके फैंस के होश उड़ गए हैं। एक्ट्रेस की ये फोटोज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।




विक्रांत संग मस्ती करती दिखीं मोनालिसा

हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति विक्रांत सिंह राजपूत संग कुछ लवी-डवी तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं। दरअसल, मोनालिसा ने ये तस्वीरें पति विक्रांत सिंह के बर्थडे पर शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जमकर मस्ती कर रही हैं। कपल एक दूजे के बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज भी देता दिख रहा है। वहीं, कइयों में एक्ट्रेस पति पर किस करती नजर आ रही हैं तो कइयों में सोफे पर बैठ मस्ती करती दिख रही हैं। इस दौरान मोनालिसा पिंग टॉप और मैचिंग शॉर्ट्स में अपनी टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं। हालांकि, इस दौरान उनका कैजुअल लुक देखने को मिल रहा है। वहीं, उनके पति विक्रांत भी व्हाइट और ब्लू टीशर्ट में कैजुअल नजर आ रहे हैं।

मालिबू में मिउ मिउ इवेंट में स्पोर्ट किया गया गिगी हदीद

कई दिनों बाद हॉलीवुड एक्ट्रेस गिगी हदीद को मालिबू में मिउ मिउ इवेंट में स्पोर्ट किया गया, जहां वह अपने लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आईं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लुक की बात करें तो इस दौरान 28 वर्षीय मॉडल बॉडीकोन ब्लैक ड्रेस में नजर आईं। इसके साथ उन्होंने व्हाइट मोजे और ब्लैक लोफर्स पेयर किए। चेहरे पर ब्लैक गॉगलस और खुले बालों में एक्ट्रेस का स्टाइल देखते ही बन रहा है। व्हाइट पर्स हाथ में कैरी किए गिगी कैमरे के सामने जबरदस्त पोज दे रही हैं। फैंस का एक्ट्रेस का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। बता दें, गिगी हदीद को प्रिजनर डिटेंशन सेंटर में ले जाने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था। जुर्म कबूल करने के बाद उन पर 1,000 डॉलर का जुर्माना लगा था। हालांकि, इस मामले में राहत मिलने के बाद एक्ट्रेस अपने दोस्तों संग चिल करती भी नजर आई थीं।



रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने चार दिन में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

करण जौहर निर्देशक की कुर्सी पर वापस आ गए हैं! फिल्म निर्माता को उनकी फिल्मों में रोमांस के चित्रण के लिए जाना जाता है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी इससे अलग नहीं है। सितारों से सजी यह फिल्म जहां आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेगी, वहीं यह आपको कभी-कभी भावुक भी कर देगी। लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी से कहीं अधिक, एक संपूर्ण मनोरंजक फिल्म है और आपके हर समय के लायक है।

करण जौहर द्वारा निर्देशित रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म रॉकी ??और रानी की प्रेम कहानी ने रिलीज होने के पहले चार दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 52.92 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जौहर द्वारा निर्देशित रॉकी ??और रानी की प्रेम कहानी दो विपरीत पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से संबंध रखने वाले एक जोड़े की प्रेम कहानी है। इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म में धर्मेन्द्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी हैं।

करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर फिल्म की कमाई के नवीनतम आंकड़ों की जानकारी साझा की। प्रोडक्शन हाउस ने ट्विटर पर लिखा, रंधावा और चटर्जी की यह कहानी बॉक्स ऑफिस को मनोरंजन और प्यार से भर रही है। बैनर के अनुसार, फिल्म ने सोमवार को 7.03 करोड़ रुपये कमाए जिससे कुल कमाई 45.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 52.92 करोड़ रुपये हो गई।



स्वस्थ तन और मन के लिए याद रखें 5 नियम

हमारे शरीर की हर प्रणाली आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम इन नियमों को नियमों की तरह नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक तरीका हैं।

पूरा पोषण लेना

पोषण लेने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सलाद खाते रहते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से लेकर सभी विटामिन और खनिजों तक सभी पोषक तत्वों से भर दें। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा कुल कैलोरी सेवन हमारे शरीर संरचना लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भी सुनिश्चित करते हुए कि हमारे आहार में हमारे पसंदीदा और मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर का 50-60 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है और हमें इष्टतम स्वास्थ्य, मस्तिष्क के कार्य आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

व्यायाम और गतिविधि

सप्ताह में कम से कम 3-5 बार व्यायाम करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यायाम का कोई भी रूप जो हमारे लिए सुरक्षित है, और जिसका हम आनंद लेते हैं, हम में से अधिकांश के लिए एक अच्छी शुरुआत है। दैनिक आधार पर सक्रिय रहने और अधिक कदम (8-10' कदम) चलने के साथ इसे जोड़ना एक आदर्श संयोजन बनाता है।

इसके बाद नींद आती है

हर रात 7.5 घंटे से ज्यादा सोना अच्छा होता है। पर्याप्त नींद भी हमारी उत्पादकता में सुधार करती है और लालसा, भूख को कम करती है, सूजन और भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करती है।

तनाव प्रबंधन और दिमागीपन

दूसरी ओर, तनाव प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर तनाव को ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो यह वास्तव में हमें बेहतर प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याद रखें, हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसलिए, हमें सक्रिय रूप से अपने दिमाग पर काम करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए और अपने मानसिक दोषों को कम करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करना और कृतज्ञता जर्नलिंग रूटीन रखना इनके लिए एक गेम चेंजर है।

पर्यावरण और नियमित प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन में हमारे पर्यावरण में सब कुछ शामिल है। किचन में खाने से लेकर हमारी आदतों और सोशल मीडिया पर हम लोगों को फॉलो करते हैं। क्या हम अपने आत्म-विकास और हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों को पर्याप्त समय दे रहे हैं? यह उस तरह के लोगों तक भी फैलता है जिनसे हम खुद को घेरते हैं। खुद से पूछने के लिए कुछ प्रश्न : क्या वे हमें प्रेरित करते हैं? क्या वे हमें और हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं? क्या वे हमें सुधारने में मदद करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या हमें स्वस्थ बनाती है, हमें मनुष्य बनाती है या हमें अधिक उत्पादक बनाती है? मैं अत्यधिक सुबह और सोने से पहले की दिनचर्या रखने की सलाह दूंगा।

लहसुन-अदरक के सेवन से रहें सेहतमंद

किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं और इसे मजबूत करने के लिए अपनी डाइट में पौष्टिक आहार व सही दिनचर्या का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाएं। हमारी रसोई में वे सारी औषधियां मौजूद हैं जिनके गुणों से हम अभी भी अनजान हैं।

जी हां, आप अदरक-लहसुन का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप इसके सेहत लाभ के बारे में जानते हैं? लहसुन-अदरक के सेवन से आप निरोगी काया पा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इसका सेवन कैसे करना है, इस बारे में भी हमें पता होना आवश्यक है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि केवल खाने में ही अदरक-लहसुन का सेवन काफी है लेकिन इसके अलावा भी आपको इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि खाने के पकने के दौरान इनके गुण कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस लेख में लहसुन-अदरक के फायदों व सेवन करने के सही तरीके के बारे में।



वॉ किंग करना यानी टहलना कई वजहों से हेल्थ के लिए फायदेमंद ही है। इससे दिल स्वस्थ रहता है, कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, मूड को बेहतर बनाता है। लेकिन क्या खाना खाने के बाद वॉकिंग करना हेल्दी है? स्टडी से पता चलता है कि यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है।

यह ब्लड शुगर को रखता है मेंटेन

डायबिटीज मैनेजमेंट में एक अहम हिस्सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के साथ एक कंट्रोल्ड ट्रायल में पाया गया कि जो लोग अपने मुख्य भोजन के बाद वॉकिंग करते थे उनका शुगर लेवल उन रोगियों की तुलना में कम था जो दिन में सिर्फ एक बार चलते थे।

दिल के लिए है अच्छा

एक्सरसाइज आपके दिल को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर दिन चलने से आपको हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। दरअसल करेंट ओपिनियन इन कार्डियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वॉकिंग करना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लडप्रेशर के लिए फायदेमंद होता है। इस तरह खाना खाने के बाद चलना आपके दिल की देखभाल

इम्यून सिस्टम को कैसे करें मजबूत?

इम्यून को मजबूत करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें। इसे खाने में पका के खाने की बजाय इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। कुछ देर इन्हें हवा लगने दें। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाया जाता है। ये तत्व वायरस, बैक्टीरिया व फंगस के खिलाफ काम करते हैं। लहसुन खाने से एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है।

लहसुन कैसे खाएं

इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इसे आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन को चबा-चबाकर खाने की बजाए इसे पानी के साथ सीधा निगल लें। इस तरह से लहसुन का सेवन करने से यह ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन को 25 से 30 दिन नियमित खाने के बाद आपके अंदर से लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब आप समझ जाएं कि इससे अधिक आपको लहसुन का सेवन नहीं करना है। लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होता है। इसके लिए आप इसका सेवन एकसाथ न करें व धीरे-धीरे इसकी आदत डालें। शुरुआत के समय आप लहसुन के एकदम छोटे से हिस्सा का सेवन करें, फिर इसी तरह धीरे-धीरे इसे बढ़ाएं। जब आप लहसुन ले रहे हैं तो इसके साथ दही का सेवन भी करें।

अदरक

अदरक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। इसका नियमित सेवन आपको कई स्वास्थ्य लाभ देगा।

अदरक को कैसे खाएं?

अदरक को बिलकुल बारीक पीस लें व कढ़कस करें। आपको अदरक 1 चम्मच लेना है। इसमें 6 गिलास पानी डालें। अब इसे उबलने दें। जब यह पानी 3 गिलास हो जाए तो इसे 1 कप में निकाल लें। इसे आप गुड़ या शहद के साथ भी ले सकते हैं। दिनभर में एक बार इसका सेवन करें।

क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?

करने का एक अच्छा तरीका है।

पाचन को रखता है दुरुस्त

रिसर्च कहती है कि फिजिकल एक्टिविटी के एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के कारण खाना खाने के बाद चलना पाचन में सुधार कर सकता है। एक्सरसाइज से अपनी आंतों में फैट, लिपिड और ग्लूकोज मेटाबोलिज्म के परिवर्तनों को कम करने में मदद करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी स्थितियों को कम कर सकते हैं।

लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं

खाने के बाद वॉकिंग करना पेट में तकलीफ की वजह भी बन सकता है। इनमें अपच, मतली, उल्टी, पेट फूलना, गैस, दर्द, और दर्द शामिल हैं। यह एक हार्ड कार्बोहाइड्रेट सेवन या हाल ही में खाए गए खाद्य पदार्थों के पाचन में समस्याओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए आपको चलने से 30 मिनट पहले इंतजार करना चाहिए।



चलना या वॉकिंग करना ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?



जानिए मुलेटी के ये गजब के फायदे

मुलहठी स्वाद में मीठी होने के साथ-साथ कई औषधि गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से न सिर्फ खांसी में आराम मिलता है बल्कि इसके कई फायदे भी हैं। इसका इस्तेमाल आंखों के रोग, मुंह के रोग, गले के रोग, दमा, दिल के रोग, घाव के उपचार के लिए सदियों से किया जा रहा है आइए जानते हैं मुलहठी के गजब के फायदों के बारे में।


- अगर आप सूखी खांसी या गले की समस्याओं से परेशान हैं, तो मुलहठी आपके काम की चीज है। काली मिर्च के साथ पीस कर मुलहठी का सेवन, सूखी खांसी में तो लाभकारी है ही, साथ ही इसे चूसने या उबालकर सेवन करने से गले की खराश, दर्द आदि में भी लाभ होता है।
- मुलहठी चेहरे की खुबसूरती को बढ़ाने का काम करती है। इसे घिसकर लगाने पर चेहरे के दाग और मुँहासे ठीक हो जाते हैं, साथ ही यह आपकी त्वचा को जवा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- मुलहठी रक्त को भी शुद्ध करती है जिससे त्वचा की समस्याएं नहीं होती।
- दूध के साथ मुलहठी का सेवन शरीर की ताकत में वृद्धि करता है। इसके अलावा घी व शहद के साथ मुलहठी का प्रयोग करने से हृदय से संबंधित समस्याएं नहीं होती।
- मुंह में छाले हो जाने की स्थिति में मुलहठी चूसना, इसके पानी से कुल्ला करना और उसे पीना बहुत जल्दी छालों से राहत देता है। साथ ही मुलहठी आवाज को मंथुर और सुरीली बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है।
- पेट के अल्सर में मुलहठी का सेवन ठंडक देने के साथ ही लाभप्रद होता है। आंत की टीबी होने की स्थिति में भी मुलहठी फायदेमंद उपाय है।
- त्वचा या शरीर में कहीं जल जाने पर भी मुलहठी के चूर्ण और मक्खन का लेप एक कारगर उपाय है, साथ ही यह आंखों की रौशनी में भी वृद्धि करती है।



पेट से जुड़ी समस्याओं से हैं परेशान तो इन आसान उपायों से पाएं छुटकारा

लाइफस्टाइल में बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। गलत खान-पान आपकी सेहत को प्रभावित करता है, ऐसे में पेट से जुड़ी समस्या का होना आम बात है। जैसे पेट दर्द, गैस, पेट का फूलना आदि। वहीं कुछ लोग पेट अच्छी तरह साफ न होने की शिकायत रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप पेट साफ न होने की समस्या से निजात पा सकते हैं।



- बदहजमी से परेशान हैं, तो आपको पुदीने का सेवन करना चाहिए। पुदीना पेट को साफ करने में मदद करता है। इसका सेवन आप चटनी के रूप में भी कर सकते हैं।
- सौंफ और सफेद जीरा पाउडर को पहले तवे पर भून लें और फिर उसे मिलाकर पीस लें। अब इस पाउडर का सेवन या तो दिन में एक बार करें या फिर अगर पेट साफ न होने की समस्या से ज्यादा परेशान हैं, तो इसका सेवन दो से तीन बार करें। आपको पेट साफ न होने की समस्या से राहत मिलेगी।
- नियमित रूप से सुबह के समय गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। इसके कई फायदे हैं। यह मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है।
- अजवाइन का बीज गैस और बदहजमी की समस्या को दूर करता है और तुरंत पेट को साफ करता है। इसके लिए आप अजवाइन के बीज को भूनकर रख लें और खाना खाने के बाद कुछ बीजों को रोज चबाएं।



आलू का करें छिलके सहित इस्तेमाल जानिए इसके लाभ

सब्जी बनाते समय हम जब आलू का इस्तेमाल करते हैं, तो आमतौर पर लोग इसके छिलके निकाल कर फेंक देते हैं, और इसके बाद ही आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आलू को छिलके सहित इस्तेमाल करने के क्या सेहत लाभ मिलते हैं।

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है

आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है।

मेटाबोलिज्म ठीक रखता है

आलू के छिलके मेटाबोलिज्म को भी सही रखने में मददगार होते हैं। इन्हें खाने से

नर्ल्स को मजबूती मिलती है।

एनीमिया से दूर रखता है

आलू के छिलके में आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे एनीमिया होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है।

ताकत

आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है, जो कि शरीर को ताकत देने का काम करता है।

फाइबर से भरपूर

हमारी डाइट में फाइबर की कुछ मात्रा जरूर शामिल होना चाहिए और आलू के छिलके में अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं। ये डाइजैस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते हैं।

बीजेपी विधायक संदीप देसाई ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई

क्रांति समय, सुरत

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

सुरत, हाल ही में क्राइम ब्रांच ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पर 80 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले जिनेंद्र शाह को गिरफ्तार किया था. अब सुरत क्राइम ब्रांच में पाटिल समेत राज्य सरकार के मंत्री और विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाला पचा प्रसारित कर मानहानि करने की एक और शिकायत दर्ज की गई है। इस पर्व को लेकर दर्ज शिकायत में यह बात सामने आई है कि बीजेपी नेताओं को पोस्ट के जरिए भेजे गए पेन ड्राइव पर्व में जिनेंद्र शाह का यही वीडियो बीजेपी के दक्षिण गुजरात के कार्यकर्ता ने ही भेजा था. जिसमें तीन के खिलाफ सुरत क्राइम ब्रांच में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है. विधायक संदीप देसाई ने भाजपा अध्यक्ष पाटिल,



सरकार के एक मंत्री और एक चौरासी विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पर्व के प्रसार के संबंध में सुरत अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि जून माह में डाकिया ने मेरे घर एक पेन ड्राइव और दो टाइप किये हुए कागज थे. जिसमें मेरे और पार्टी अध्यक्ष सीआर पाटिल पर अलग-अलग आरोप लगाए गए. जिसमें पाटिल ने खाता आवंटित करने के लिए बीजेपी

नेताओं से बड़ी रकम ली है और खाता बांट दिया है. ऐसे गंभीर आरोपों वाला एक टाइप किया हुआ पत्र था, साथ में एक वीडियो पेन ड्राइव भी थी. जब विधायक संदीप देसाई ने बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों से बात की तो पता चला कि गुजरात के सभी बड़े नेताओं को ऐसे कवर डाक के जरिए भेजे गए थे. इस तरह के पर्व से पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इसलिए जांच के लिए सुरत क्राइम ब्रांच में आवेदन किया गया।

नेताओं को मिले कवर कोसंबा में रहने वाले दीपू यादव और खुमानसिंह पटेल नाम के दो व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार और पालेज रेलवे स्टेशनों के पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किए गए पाए गए।

इसलिए सुरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

उस समय, भाजपा से वर्षों से जुड़े एक करीबी कार्यकर्ता और उमपाड़ा तालुक के प्रभारी और तरसाडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह रणजीत सिंह सोलंकी ने उन्हें यह पाठ और इसे पोस्ट करने के लिए एक पेन ड्राइव के साथ एक कवर दिया।

बुलेट ट्रेन साइट पर हादसा, क्रेन गिरने से एक मजदूर की मौत

क्रांति समय, सुरत

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। वडोदरा के कजरण में बुलेट ट्रेन के काम के दौरान एक क्रेन गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जब 6 अन्य घायल हो गए। वडोदरा में यह घटना करजण कस्बे के

कंबोला के नजदीक हुई। बुलेट ट्रेन के निर्माण स्थल पर हादसे की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य को शुरू किया गया। हालांकि अभी हादसे पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। एनएनएसआरसीएल की

देखरेख में अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के कॉरीडोर का निर्माण हो रहा है। कजरण के कंबोला में गार्डर रखने की काम किया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन गिर गई। इसके चलते यह घटना हो गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

प्रेमिका के परिवार ने शादी से इंकार किया तो प्रेमी ने उसके घर सामने ही आत्महत्या कर

क्रांति समय, सुरत

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

भावनगर, शहर के अथेलाइ क्षेत्र में आत्महत्या की हैरान कर देनेवाली घटना सामने आई है। जिसमें एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर के सामने ही जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने युवक के साथ अपनी बेटी की शादी करने

से इंकार कर दिया था। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें तीन लोगों को दोषी बताया है। इस वीडियो में युवक ने कहा 'विजय वल्लभाई झांपडिया और संजय दादू मैं तुम दोनों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तुम दोनों मुझे परेशान करते थे। मुझे भावनगर में हीरा तराशने के काम के लिए

नहीं आने देते थे। मैं और तुम्हारी बेटी जब भाग गए थे तब तुमने वादा किया था कि दोनों की 10 दिनों में शादी करा देंगे। लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद शादी नहीं कराई। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। विजय वल्लभाई इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जेल के सलिए गिनने पड़ेंगे। बस यह मेरा आखिरी

वीडियो है।' दरअसल भावनगर के अथेलाइ क्षेत्र में रहनेवाले रोशन दिनेशभाई तलाविया एक युवती से प्यार करता था। युवती अपने घर से भागकर रोशन के साथ रहने लगी। हालांकि युवती के परिवार ने दोनों की 10 दिनों में शादी कराने का वादा किया और अपनी बेटी को साथ ले गए। लेकिन बाद में परिवार ने अपनी

बेटी की शादी रोशन के साथ करने से इंकार दिया। इस कारण रोशन तलाविया ने युवती के घर सामने ही जहरीली दवाई गटगट ली। रोशन को तुरंत भावनगर के सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने रोशन के वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की है।

समस्या आपकी हमें भेजे

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएँ और
समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा, वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार
संबंधित संपर्क करें

पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023

संपर्क नं.-9879141480

ईमेल:-krantisamay@gmail.com

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरो
और अन्य शहर, ग्राम में पत्रकारों
की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं

पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023

संपर्क नं.-9879141480

ईमेल:-krantisamay@gmail.com